



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11 नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3—जनवरी 9, 2004 (पौष 13, 1925)
No. 11 NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3—JANUARY 9, 2004 (PAUSA 13, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग	खण्ड	विषय	पृष्ठ
भाग I	खण्ड-1	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 1
भाग I	खण्ड-2	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I	खण्ड-3	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I	खण्ड-4	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग II	खण्ड-1	अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II	खण्ड-1क	अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II	खण्ड-2	विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर सामंतियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II	खण्ड-3	उप खण्ड (i) -- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां भादि भी शामिल हैं)	1
भाग II	खण्ड-3	उप खण्ड (ii) -- भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के	1
		प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
		भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
		भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
		भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
		भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	1
		भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
		भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1
		भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1
		भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	PAGE
	1		*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	I	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	I
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2003

सं. 254-प्रेज/2003-- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :--

1. आईसी-43263 मेजर सुरेन्द्र कुमार बालिवाल, एसएम, महार/30 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-47058 मेजर सतबीर सिंह, एसएम, 2 जाट
3. आईसी-52482 मेजर बालुसू श्रीनिवास, एमएम, ग्रेनेडियर/29 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-54089 मेजर अतुल कुमार घिल्डियाल, एसएम, डोगरा/20 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
5. आईसी-54346 मेजर किरपाल सिंह गिल, एसएम 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
6. 3185381 नायक धर्मवरी सिंह, एमएम, 7 जाट
7. 2793880 सिपाही शेख मुख्तार महिबूब, एसएम, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
निदेशक

सं. 255-प्रेज/2003-- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :--

1. आईसी-42988 मेजर पदम बहादुर गुरुंग, 2 डोगरा
2. आईसी-43602 मेजर मधुर गोयल, जाट/34 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-46798 मेजर राजेन्द्र कुमार, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-48378 मेजर दलजीत सिंह अहलवात, आसाम रेजिमेंट, 21 असम राइफल
5. आईसी-48775 मेजर देविन्द्र सिंह दलाल, सेना सेवा कोर/17 राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-49311 मेजर गरिकापति सत्या प्रकाश राजू, 7 जाट
7. आईसी-50573 मेजर अनिल गोर्सी, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
8. आईसी-51587 मेजर विवेक सिंह भंडराल, 21 पैरा (एसएफ) (मरणोपरांत)
9. आईसी-52113 मेजर रवि किशोर चौहान, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल

10. आईसी-52473 मेजर वेल्लुरी नागेन्द्र राव, इंजीनियर्स/36 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-52640 मेजर तुषार जोशी, कुमाऊं/51 एसएजी
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
12. आईसी-53576 मेजर बलराज गुरुंग, 9 पैरा
13. आईसी-53733 मेजर संजय सिन्हा, 4 ग्रेनेडियर
14. आईसी-54032 मेजर अतुल राजपूत, जम्मू-कश्मीर राइफल/28 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-54322 मेजर वंगुरु रवि, एडी आर्टि/51 एसएजी/राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
16. आईसी-54630 मेजर याशोन रमेश आचार्य,
राजपूत/44 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
17. आईसी-55356 मेजर राजेश यादव, 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
18. आईसी-55885 मेजर हनुमंत सिंह जमवाल,
आर्टि/169 फील्ड रेजीमेंट
19. आईसी-55899 मेजर सुमीत सिन्हा, 3 सिख
20. आईसी-57132 मेजर पियूष व्यास, 1/4 गोरखा राइफल
21. आईसी-57671 मेजर पवन दीप सिंह बल, 21 बिहार

22. आईसी-57791 मेजर अभिजीत सिंह, 7 पैरा
23. आईसी-52123 कैप्टन वेलुस्वामी तिरुपति,
इंटेलेजेंस/न. 2 डिटेचमेंट पूर्वी कमान,आईएसजी (मरणोपरांत)
24. आईसी-57219 कैप्टन उदय सिंह, पैरा/22 एसएफ
25. आईसी-57393 कैप्टन राकेश पचोरा,आर्मड /5 असम राइफल
26. आईसी-57947 कैप्टन राजेश शर्मा, ग्रेनेडियर/29 राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-58252 कैप्टन पल्लीपुरम राजमनि विनायक,2 पैरा (एसएफ)
28. आईसी-58296 कैप्टन कुमार रणविजय, पंजाब/37 राष्ट्रीय राइफल
29. आईसी-58298 कैप्टन ललित कुमार मोहंती,
आर्टि/9 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-58628 कैप्टन कपिल यादव, 9 पैरा (एसएफ)
31. आईसी-58662 कैप्टन बीनेश नायर, 2 पैरा (एसएफ)
32. आईसी-58745 कैप्टन सौरभ कालगाँवकर, 16 पंजाब
33. आईसी-58837 कैप्टन दीपक शर्मा, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल
34. आईसी-59219 कैप्टन सुमीत शैरोन, 16 पंजाब

35. आईसी-59259 कैप्टन एस सुनील रेड्डी, सिग्नल/44 राष्ट्रीय राइफल
36. आईसी-59262 कैप्टन विनय, 3 डोगरा
37. आईसी-59388 कैप्टन राकेश चन्द्र बर्थवाल,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
38. आईसी-59666 कैप्टन प्रनीत डंगवाल, 2 पैरा (एसएफ)
39. आईसी-59806 कैप्टन अभिषेक कुलश्रेष्ठ, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल
40. आईसी-59977 कैप्टन श्रीयन्स कुमार गांधी,
53 इंजीनियर रेजीमेंट (मरणोपरांत)
41. आईसी-60525 कैप्टन कुमार गौरव मेहता, एओसी,
15 गढ़वाल राइफल
42. आईसी-60388 कैप्टन आशुतोष सहाय, सेना सेवा कोर/9 असम
43. आईसी-60996 कैप्टन विकास कक्कड़, 7 सिख
44. एसएस-38350 कैप्टन विक्रम, 8 बिहार
45. आईसी-60951 लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह, 3 डोगरा
46. आईसी-61111 लेफ्टिनेंट मुनीश कुमार शर्मा, 19 पंजाब

47. आईसी-61358 लेफ्टिनेंट सिद्धा रमेश एम रामपुर, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
48. आईसी- 61386 लेफ्टिनेंट शेखर अत्री, 2 पैरा (एसएफ)
49. आईसी-61683 लेफ्टिनेंट सम्भव खुशाल, आर्टि/14 फील्ड रेजीमेंट
50. आईसी-61851 लेफ्टिनेंट सुमीत शर्मा, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
51. एसएस-38713 लेफ्टिनेंट प्रगीत कुमार, आर्मी आर्डिनेंस कोर/ 7 कुमाऊं
52. एसएस-39280 लेफ्टिनेंट अर्जुन मोहन, 7 कुमाऊं
53. एसएस-39292 लेफ्टिनेंट मनोहर सिंह भाटी, 9 पैरा (एसएफ)
54. जेसी-188538 सूबेदार हाऊसुनमांग जो, 1 असम
55. जेसी-218344 सूबेदार राजेश कुमार खाखा,
बिहार/24 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
56. जेसी-260835 सूबेदार विनायक राम राव अहेर, आर्टि/
169 फील्ड रेजीमेंट
57. जेसी-412340 सूबेदार कालुराम सारण, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
58. जेसी-458065 सूबेदार मधुकर गणपति इन्द्र,
11 मराठा लाइट इन्फैंट्री

59. जेसी-46833 सूबेदार बहादुर सिंह, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
60. जेसी-478572 सूबेदार प्रेम सिंह, राजपूत/10 राष्ट्रीय राइफल
61. जेसी-488423 सूबेदार लक्ष्मण सिंह, 21 जाट
62. जेसी-498116 सूबेदार अमरीक सिंह, 3 सिख
63. जेसी-519129 सूबेदार सूरज प्रकाश राणा, डोगरा/.11 राष्ट्रीय राइफल
64. जेसी-548411 सूबेदार विजोय कुमार नारजारी, 1 असम
65. जेसी-568657 सूबेदार घनश्याम, महार/30 राष्ट्रीय राइफल
66. जेसी-578368 सूबेदार सुभाष चन्द्र, 9 जम्मू-कश्मीर राइफल
67. जेसी-578725 सूबेदार बदर दीन, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल
68. जेसी-579068 सूबेदार शमशेर सिंह, 1 जम्मू-कश्मीर राइफल
(मरणोपरांत)
69. जेसी 237908 रिसालदार हरिपाल दत्ता, आर्मड कोर/
24 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
70. जेसी-239206 नायब रिसालदार सुरेश चन्द, आर्मड कोर/
14 राष्ट्रीय राइफल

71. जेसी-306886 नायब सूबेदार बंगवेलू राजेन्द्रन,
4 इंजीनियर रेजिमेंट (मरणोपरांत)
72. जेसी-412489 नायब सूबेदार सुलतान सिंह,
9 पैरा (एसएफ)
73. जेसी-412644 नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह,
9 पैरा (एसएफ)
74. जेसी-429068 नायब सूबेदार रमेश चन्द, 24 पंजाब (मरणोपरांत)
75. जेसी-438946 नायब सूबेदार वी धनपाल, 18 मद्रास
76. जेसी- 458787 नायब सूबेदार सालुंके राव साहेब राम चन्द्र,
मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल
77. जेसी-458815 नायब सूबेदार दय्येश्वर गणपती वांगेकर,
11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
78. जेसी-468952 नायब सूबेदार अनूप सिंह, राजपूताना राइफल/
18 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
79. जेसी-468992 नायब सूबेदार राम निवास, राजपूताना राइफल/
9 राष्ट्रीय राइफल
80. जेसी-498986 नायब सूबेदार झिरमल सिंह, 3 सिख
81. जेसी-499010 नायब सूबेदार तरलोचन सिंह, 7 सिख

82. जेसी-519174 नायब सूबेदार सोम दत्त, डोगरा/40 राष्ट्रीय राइफल
83. जेसी-579033 नायब सूबेदार चरन दास,
6 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
84. जेसी-602437 नायब सूबेदार प्रेम बहादुर थापा,
4/1 गोरखा राइफल
85. 2473053 हवलदार रमेश कुमार, 24 पंजाब
86. 2481132 हवलदार रछपाल सिंह, 16 पंजाब
87. 2585680 हवलदार दिनाकरन सी, 18 मद्रास
88. 2982186 हवलदार अजय पाल सिंह, 2 राजपूत
89. 3171907 हवलदार धर्मवीर सिंह, 7 जाट
90. 3176044 हवलदार नाहर सिंह, 7 जाट
91. 3386907 हवलदार लखबीर सिंह, 5 सिख
92. 4065101 हवलदार पूरण सिंह, 15 गढ़वाल राइफल
93. 4176044 हवलदार दलबीर सिंह रौतेला, 7 कुमाऊं

94. 4180637 हवलदार नाजिम सिंह यादव, 7 कुमांड
95. 4264115 हवलदार रमेश प्रताप सिंह, 8 बिहार (मरणोपरान्त)
96. 4359215 हवलदार रमनी काँत दास, असम/35 राष्ट्रीय राइफल
97. 4557433 हवलदार जसवन्त सिंह, महार/1 राष्ट्रीय राइफल
98. 5346137 हवलदार सुनील कुमार गुरुंग, 2/4 गोरखा राइफल
99. 5346204 हवलदार तिल बहादुर थापा, 2/4 गोरखा राइफल
100. 5845771 हवलदार मोहन बहादुर शाही, 4/9 गोरखा राइफल
101. 9085973 हवलदार अनार सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/
10 राष्ट्रीय राइफल
102. 13616064 हवलदार बीर बहादुर थापा, 2 पैरा (एसएफ)
103. 13616203 हवलदार नुमल चन्द्रा गोगई, 9 पैरा (एसएफ)
104. 13617368 हवलदार रणजीत सिंह, 9 पैरा (एसएफ)
105. 13617709 हवलदार नरेन्द्र कुमार ठाकुर, 2 पैरा (एसएफ)
106. 13745826 हवलदार अमरजीत सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/
31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)

107. 2678499 लांस हवलदार मोहन लाल, ग्रेनेडियर/
39 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
108. 2679961 लांस हवलदार पियारे राम, 6 ग्रेनेडियर
109. 2788188 लांस हवलदार भोसले जयपाल शिवाजी,
11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
110. 3183198 लांस हवलदार जगदीश प्रसाद, 21 जाट
111. 3391872 लांस हवलदार बलजीत सिंह, 7 सिख
112. 5846596 लांस हवलदार दिलीप छेत्री, 4/9 गोरखा राइफल
113. 1481829 नायक कुलदीप राज, इंजीनियर, 39 राष्ट्रीय राइफल
114. 2477742 नायक कुलदीप सिंह, पंजाब/ 37 राष्ट्रीय राइफल
115. 2593173 नायक महन्तेश, 18 मद्रास
116. 2685618 नायक राज कुमार, 22 ग्रेनेडियर (मरणोपरांत)
117. 2686897 नायक आबिद अली, 5 ग्रेनेडियर (मरणोपरांत)
118. 2786171 नायक रोकडे रमेश विठलराव,
भारत लाइट इन्फैंट्री/41 राष्ट्रीय राइफल

119. 2788710 नायक संतोष शर्मा, मराठा लाइट इन्फैंट्री/41 राष्ट्रीय राइफल
120. 2789557 नायक निवृत्ती पाटिल, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
121. 4179495 नायक अमर सिंह, 4 कुमाऊं
122. 4182851 नायक दिनेश सिंह, 9 पैरा (एसएफ)
123. 4268799 नायक योरी शंकर कान्ति, 8 बिहार
124. 4362182 नायक बंगूआ पाठक, 9 असम
125. 5044357 नायक हर्ष बालपुर भापा, 4/1 गोरखा राइफल (मरणोपरांत)
126. 13693382 नायक नायकवाड राजु सन्तु, गार्ड्स/
21 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
127. 15113194 नायक धनीराम, आर्टि/43 राष्ट्रीय राइफल
128. 2483139 लांस नायक राजेन्द्र कुमार, पंजाब/22 राष्ट्रीय राइफल
129. 2485429 लांस नायक सतपाल सिंह, पंजाब/37 राष्ट्रीय राइफल
130. 2486110 लांस नायक गुरदेव सिंह, 24 पंजाब
131. 2685420 लांस नायक संगीव सिंह ठाकुर, ग्रेनेडियर/12 राष्ट्रीय राइफल

132. 2792194 लांस नायक चन्द्रकांत राव साहिब आइनापुरे
मराठा लाइट इन्फैंट्री/17 राष्ट्रीय राइफल
133. 2887226 लांस नायक अनिल कुमार, 13 राजपूताना राइफल
134. 2891459 लांस नायक सुघीन, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
135. 2991749 लांस नायक देवेन्द्र सिंह भदौरिया, 6 राजपूत
136. 3186017 लांस नायक राज कुमार, 7 जाट
137. 3394419 लांस नायक गुरमीत सिंह, 3 सिख
138. 3395258 लांस नायक साहिब सिंह, 3 सिख
139. 4074718 लांस नायक पान सिंह, 16 गढ़वाल राइफल
140. 4074719 लांस नायक जगदीश सिंह, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
141. 4468831 लांस नायक देवराज सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री/19 राष्ट्रीय राइफल
142. 4471671 लांस नायक रणधीर सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री/2 राष्ट्रीय राइफल
143. 4474567 लांस नायक सुखदेव सिंह, 11 सिख लाइट इन्फैंट्री
144. 9420438 लांस नायक कंचन मुखिया, 7/11 गोरखा राइफल

145. 9420672 लांस नायक बेनुर राई, 3/11 गोरखा राइफल
146. 10212997 लांस नायक मोहम्मद सलाहुदीन,
113 बटालियन इन्फैंट्री (टीए) राजपूत (मरणोपरांत)
147. 13694765 लांस नायक इन्देश सिंह, गार्ड/ 21 राष्ट्रीय राइफल
148. 13756029 लांस नायक पूरन सिंह, 1 जम्मू-कश्मीर राइफल
149. 14919879 लांस नायक सुरेन्द्र कुमार साह, मैक. इन्फैंट्री/
5 राष्ट्रीय राइफल
150. 15373673 लांस नायक जितेन्द्र सिंह, सिगनल/22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
151. 2491294 सिपाही कुलदीप सिंह, पंजाब, 22 राष्ट्रीय राइफल
152. 2602650 सिपाही टी एस जिनिस, मद्रास/
38 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
153. 2602987 सिपाही अथिमुला सोमसुन्दरा शनमुगम,
मद्रास/25 राष्ट्रीय राइफल
154. 2603238 सिपाही एस वेलमुरुगन, 17 मद्रास
155. 2605177 सिपाही एम रशीद, 18 मद्रास

156. 2795230 सिपाही समुद्रे संतोष कान्हुदेव,
मराठा लाइट इन्फैंट्री/41 राष्ट्रीय राइफल
157. 2796988 सिपाही माने संतोष भन्कुसराव,
18 मराठा लाइट इन्फैंट्री
158. 2797106 सिपाही रानजने राजेश लक्ष्मन, 1 मराठा लाइट इन्फैंट्री
159. 2797975 सिपाही शेक खादर बाशा, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
160. 3398677 सिपाही बलजिन्दर सिंह, 3 सिख
161. 3401884 सिपाही जसविन्दर सिंह, सिख/6 राष्ट्रीय राइफल
162. 3996328 सिपाही रमेश कुमार, डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
163. 3996955 सिपाही मनोज कुमार, डोगरा/40 राष्ट्रीय राइफल
164. 3998630 सिपाही दविन्दर सिंह, डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
165. 4000094 सिपाही अतर सिंह, 9 डोगरा
166. 4191039 सिपाही जगदीश सिंह, कुम्भकर्ण/13 राष्ट्रीय राइफल
167. 4274976 सिपाही दिनेश गोस्वामी, बिहार/
24 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
168. 4368177 सिपाही एन सेनथुर्गो इजॉग, 1 असम

169. 4368323 सिपाही लालरीन मोइया, 9 असम
170. 4569557 सिपाही सन्जू सिंह कुशवाह, महार/
30 राष्ट्रीय राइफल, (मरणोपरांत)
171. 4571100 सिपाही सुखजिन्दर सिंह, महार/
30 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
172. 8034733 सिपाही अजय कुमार, 21 बिहार
173. 10213326 सिपाही बिधान मण्डल,
113 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) राजपूत
174. 2501953 राइफल मैन सन्तोष पी के,
25 असम राइफल (मरणोपरांत)
175. 2893616 राइफल मैन सुलतान सिंह आर्या, राजपूताना राइफल/
9 राष्ट्रीय राइफल
176. 2894661 राइफल मैन अटल सिंह, राजपूताना राइफल/
43 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
177. 2897054 राइफलमैन सजंय सिंह, 6 राजपूताना राइफल
178. 3300639 राइफल मैन भीम सेन,
33 असम राइफल (मरणोपरांत)
179. 3300929 राइफल मैन यम बहादुर खत्री, 33 असम राइफल

180. 4076450 राइफल मैन कपिल देव थपलियाल, 15 गढ़वाल राइफल
181. 4080005 राइफल मैन चन्द्र बल्लभ, 4 गढ़वाल राइफल
182. 4080224 राइफल मैन योगेश सिंह, 16 गढ़वाल राइफल
183. 4081007 राइफल मैन होशियार सिंह, गढ़वाल राइफल/
48 राष्ट्रीय राइफल
184. 4081115 राइफल मैन धर्मेन्द्र सिंह असवाल, 2 गढ़वाल राइफल
185. 5046517 राइफल मैन मन बहादुर पुन, 3/1 गोरखा राइफल
186. 5047479 राइफल मैन महेन्दर सिंह, 1 गोरखा राइफल/
15 राष्ट्रीय राइफल
187. 5349007 राइफल मैन झाम बहादुर पुन, 4 गोरखा राइफल/
15 राष्ट्रीय राइफल
188. 9421403 राइफल मैन किशन राई, 6/11 गोरखा राइफल
189. 13758238 राइफल मैन दीना नाथ, जम्मू-कश्मीर राइफल/
28 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
190. 1376335i राइफल मैन जोगिन्द्र सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/
31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)

191. 14426978 सहकल मेन लोकनाथम गनप्पा, आर्टि/
29 राष्ट्रीय राइफल
192. 4079277 पैराटूपर सुरेन्द्र सिंह रावत, 2 पैरा (एसएफ)
193. 4188995 पैराटूपर प्रकाश चन्द्र सिंह, 2 पैरा (एसएफ)
194. 4367193 पैराटूपर लेरा सोना, 2 पैरा (एसएफ)
195. 13622006 पैराटूपर अनिल कुमार, 9 पैरा (एसएफ)
196. 13764443 पैराटूपर हितेन्द्र सिंह, 9 पैरा (एसएफ)
197. 13620596 कमांडो दुर्गा प्रसाद डीमरी,
पैरा/21 एसएजी, एन एस जी
198. 13621401 कमांडो नरेन्द्र सिंह,
पैरा/51 एसएजी, एन एस जी
199. 2692018 ग्रेनेडियर नीलम सिंह तोमर, ग्रेनेडियर, 12 राष्ट्रीय राइफल
200. 13698027 गाइर्समैन दर्शन सिंह, गाइर्स, 21 राष्ट्रीय राइफल
201. 15666989 सिगनलमेन कन्दर्प प्रधान,
सिगनल/31 आर्मंड डिवीजन सिगनल रेजीमेंट
202. 14618084 क्राफ्टमैन श्री कुमार एस, ईएमई, 22 राष्ट्रीय राइफल

(बलरुण मित्रा)
निदेशक

संख्या 256—प्रेज/2003 -- राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नी सेना मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:--

1. रमेश चन्द्र, एल एस सी डी II , सं. 116126-जेड
2. अरुण डोभाल, सीपीओ क्यूए I सं. 160409-टी
3. लेफ्टिनेंट कमांडर शैलेश कुमार ढाका (03762-जेड)

//

अरुण मित्रा
(अरुण मित्रा)
निदेशक

संख्या 257-प्रेज/2003 — राष्ट्रपति “ऑपरेशन राइनों”, “ऑपरेशन हिफाजत” तथा “ऑपरेशन हिफाजत II” के संबंध में रक्षा मंत्री द्वारा सेनाध्यक्ष से प्राप्त “उल्लेखपत्रों” के अनुसार निम्नलिखित अफसरों/कर्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने का आदेश देते हैं:-

ऑपरेशन राइनों

1. आईसी-47278 मेजर सूर्य पाल सिंह रावत, 16 पंजाब
2. आईसी-54610 मेजर विक्रम भान, 7 कुमांक
3. आईसी-55443 मेजर मनपरवेश हेर, एसएम, 13 गार्ड
4. आईसी-58266 मेजर संदीप कृष्ण कुमार, 16 सिख लाइट इन्फैंट्री
5. एसएस-37013 मेजर शम्भारूल हसन, आर्टिलरी, 14 फील्ड रेजीमेंट
6. आईसी-59171 कैप्टन राजीव शंकर, एसएम, सेना सेवा कोर, 9 ग्रेनेडियर
7. आईसी-60260 कैप्टन सुशांत गोविल, 13 ग्रेनेडियर
8. एसएस-38388 कैप्टन परमिन्दर कान्डा, इंटेलीजेंस, 4 कोर इंटेलीजेंस एवं एफएस कंपनी
9. आईसी-60642 लेफ्टि. धीरेन्द्र यादव, 24 पंजाब
10. आईसी-61862 लेफ्टि. राजेन्द्र सिंह, 16 पंजाब
11. जेसी-428966 नायब सूबेदार रोमेश चन्द्र, 24 पंजाब
12. 2480383 हवलदार काश्मीर सिंह, 24 पंजाब
13. 7430977 हवलदार विजय पाल सिंह, इंटेलीजेंस, 4 कोर इंटेलीजेंस एवं एफएस कंपनी

ऑपरेशन हिमालय

14. आईसी-54069 कैप्टन सोमेश जसवाल, मुख्यालय 23 सेक्टर
15. 2200936 राइफलमैन रमेश चन्द्र जोशी, 22 असम राइफल
16. 66409 राइफलमैन पओंगम डोंगेल, असम राइफल

ऑपरेशन हिमालय II

17. आईसी-50646 मेजर पवन कुमार, इंजीनियर, 25 असम राइफल
18. 2103055 राइफलमैन राजेन्द्र प्रसाद पंत, 21 असम राइफल

वरुण मित्रा
(वरुण मित्रा)
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर, 2003

सं० 6/11/समिति-एक/2002 - दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 के लोक सभा समाचार - भाग II में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

सं० 4316

विदेशी मामलों संबंधी समिति के लिए सदस्य का नामनिर्देशन

अध्यक्ष ने डा० सेबेस्टियन पाल को विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

ब्रह्म दत्त
(ब्रह्म दत्त)
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIATNew Delhi, the 15th August, 2003

No.254—Pres/2003 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-43263 MAJOR SURENDRA KUMAR BALIWAL, SM
MAHAR/30 RASHTIRYA RIFLES
2. IC-47058 MAJOR SATBIR SINGH, SM, 2 JAT
3. IC-52482 MAJOR BALUSU SRINIVAS, SM
GRENADIERS/29 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-54089 MAJOR ATUL KUMAR GHILDIYAL, SM
DOGRA/20 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
5. IC-54346 MAJOR KIRPAL SINGH GILL, SM
1 MARATHA LIGHT INFANTRY
6. 3185381 NAIK DHARMVIR SINGH, SM, 7 JAT
7. 2793880 SEPOY SHAIKH MUKHTAR MAHIBUB, SM
MARATHA LIGHT INFANTRY/27 RASHTRIYA RIFLES



(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.255—Pres/2003 - The President is pleased to approve the award of the "**Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-42988 MAJOR PADAM BAHADUR GURUNG, 2 DOGRA
2. IC-43602 MAJOR MADHUR GOYAL, JAT/34 RASHTRIYA RIFLES
3. IC-46798 MAJOR RAJENDRA KUMAR
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-48378 MAJOR DALJEET SINGH AHLAWAT
ASSAM REGIMENT/21 ASSAM RIFLES
5. IC-48775 MAJOR DEVINDER SINGH DALAL
ARMY SERVICE CORPS/17 RASHTRIYA RIFLES
6. IC-49311 MAJOR GARIKAPATI SATYA PRAKASH RAJU, 7 JAT
7. IC-50573 MAJOR ANIL GORSHI
PARA/31 RASHTRIYA RIFLES (CDO)
8. IC-51587 MAJOR VIVEK SINGH BHANDRAL
21 PARA(SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
9. IC-52113 MAJOR RAVI KISHOR CHAUHAN
RAJPUTANA RIFLES/9 RASHTRIYA RIFLES
10. IC-52473 MAJOR VALLURY NAGENDRA RAO
ENGINEERS/36 RASHTRIYA RIFLES
11. IC-52640 MAJOR TUSHAR JOSHI
KUMAON/51 SAG, NATIONAL SECURITY GUARDS
12. IC-53576 MAJOR BALRAJ GURUNG, 9 PARA (SF)
13. IC-53733 MAJOR SANJAY SINHA, 4 GRENADIERS
14. IC-54032 MAJOR ATUL RAJPUT
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/28 RASHTRIYA RIFLES

15. IC-54322 MAJOR VANGURU RAVI
AD ARTY/51 SAG, NATIONAL SECURITY GUARDS
16. IC-54630 MAJOR YASHEN RAMESH ACHARYA
RAJPUT/44 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
17. IC-55356 MAJOR RAJESH YADAV
1 MARATHA LIGHT INFANTRY
18. IC-55885 MAJOR HANUMANT SINGH JAMWAL
ARTILLARY/169 FIELD REGIMENT
19. IC-55899 MAJOR SUMIT SINHA, 3 SIKH
20. IC-57132 MAJOR PEEYUSH VYAS, 1/4 GORKHA RIFLES
21. IC-57671 MAJOR PAWAN DEEP SINGH BAL, 21 BIHAR
22. IC-57791 MAJOR ABHIJEET SINGH, 7 PARA
23. IC-52123 CAPTAIN VELUSWAMY TIRUPATHI
INTELLIGENCE CORPS/NO 2 DETACHMENT EASTERN COMMAND (POSTHUMOUS)
24. IC-57219 CAPTAIN UDAI SINGH, PARA/22 SPECIAL FORCES
25. IC-57393 CAPTAIN RAKESH PACHORA
ARMY CORPS/5 ASSAM RIFLES
26. IC-57947 CAPTAIN RAJESH SHARMA
GRENADIERS/29 RASHTRIYA RIFLES
27. IC-58252 CAPTAIN PALLIPURAM RAJAMANI VINAYAK,
2 PARA (SPECIAL FORCES)
28. IC-58296 CAPTAIN KUMAR RANVIJAY
PUNJAB/ 37 RASHTRIYA RIFLES
29. IC-58298 CAPTAIN LALEET KUMAR MOHANTY
ARTILLERY/9 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-58628 CAPTAIN KAPIL YADAV, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
31. IC-58662 CAPTAIN BINESH NAIR, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
32. IC-58745 CAPTAIN SAURABH KALGAONKAR, 16 PUNJAB
33. IC-58837 CAPTAIN DEEPAK SHARMA
SIKH/16 RASHTRIYA RIFLES
34. IC-59219 CAPTAIN SUMIT SHERON, 16 PUNJAB

35. IC-59259 CAPTAIN S SUNEEL REDDY, SIGNALS/44 RASHTRIYA RIFLES
36. IC-59262 CAPTAIN VINAY, 3 DOGRA
37. IC-59388 CAPTAIN RAKESH CHANDRA BARTH WAL
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
38. IC-59666 CAPTAIN PRANEET DANGWAL, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
39. IC-59806 CAPTAIN ABHISHEK KULSHRESTHA
15 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
40. IC-59977 CAPTAIN SHREYANS KUMAR GANDHI
53 ENGR REGT (POSTHUMOUS)
41. IC-60525 CAPTAIN KUMAR GAURAV MEHTA, AOC, 15 GARH RIF
42. IC-60388 CAPTAIN ASHUTOSH SAHAI, ARMY SERVICE CORPS/9 ASSAM
43. IC-60996 CAPTAIN VIKAS KAKKAR, 7 SIKH
44. SS-38350 CAPTAIN VIKRAM, 8 BIHAR
45. IC- 60951 LIEUTENANT NAVJOT SINGH, 3 DOGRA
46. IC-61111 LIEUTENANT MUNISH KUMAR SHARMA, 19 PUNJAB
47. IC-61358 LIEUTENANT SIDDA RAMESH M RAMPUR
11 MARATHA LIGHT INFANTRY
48. IC-61386 LIEUTENANT SHEKHAR ATTRI, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
49. IC-61683 LIEUTENANT SAMBHAV KHUGSHAL, ARTILLARY/14 FD REGT
50. IC-61851 LIEUTENANT SUMEET SHARMA
13 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
51. SS-38713 LIEUTENANT PRAGEET KUMAR,
ARMY ORDNANCE CORPS/7 KUMAON
52. SS-39280 LIEUTENANT ARJUN MOHAN, 7 KUMAON
53. SS-39292 LIEUTENANT MANOHAR SINGH BHATTI, 9 PARA (SF)
54. JC-188538 SUBEDAR HAUSUNMANG ZOU, 1 ASSAM
55. JC-218344 SUBEDAR RAJESH KUMAR XAXA
BIHAR/24 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

56. JC-260835 SUBEDAR VINAYAK RAM RAO AHER
ARTILLERY/169 FIELD REGIMENT
57. JC-412340 SUBEDAR KALU RAM SARAN
PARA/31 RASHTRIYA RIFLES (CDO)
58. JC-458065 SUBEDAR MADHUKAR GANPATI INDER
11 MARATHA LIGHT INFANTRY
59. JC-468337 SUBEDAR BAHADUR SINGH
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
60. JC-478572 SUBEDAR PREM SINGH
RAJPUT/10 RASHTRIYA RIFLES
61. JC-488423 SUBEDAR LAXMAN SINGH, 21 JAT
62. JC-498116 SUBEDAR AMRIK SINGH, 3 SIKH
63. JC- 519129 SUBEDAR SURAJ PARKASH RANA
DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES
64. JC-548411 SUBEDAR BIJOY KUMAR NARZARY, 1 ASSAM
65. JC-568657 SUBEDAR GHANSHYAM, MAHAR/30 RASHTRIYA RIFLES
66. JC-578368 SUBEDAR SUBASH CHANDER, 9 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
67. JC-578725 SUBEDAR BADAR DIN, 15 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
68. JC-579068 SUBEDAR SHAMSHER SINGH
1 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
69. JC-237908 RISALDAR HARIPAL DATTA
ARMoured CORPS/24 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
70. JC-239206 NAIB RISALDAR SURESH CHAND
ARMoured CORPS/14 RASHTRIYA RIFLES
71. JC-306886 NAIB SUBEDAR THANGAVELU RAJENDRAN,
4 ENGINEERS REGIMENT (POSTHUMOUS)
72. JC-412489 NAIB SUBEDAR SULTAN SINGH, 9 PARA (SF)
73. JC-412644 NAIB SUBEDAR MOHINDER SINGH, 9 PARA (SF)
74. JC-429068 NAIB SUBEDAR RAMESH CHAND, 24 PUNJAB (POSTHUMOUS)
75. JC-438946 NAIB SUBEDAR V DHANAPAL, 18 MADRAS

76. JC-458787 NAIB SUBEDAR SALUNKHE RAVSAHEB RAMCHANDRA,
MARATHA LIGHT INFANTRY/27 RASHTRIYA RIFLES
77. JC-458815 NAIB SUBEDAR DNYANESHWAR GANPATI WANGEKAR,
11 MARATHA LIGHT INFANTRY
78. JC-468952 NAIB SUBEDAR ANUP SINGH
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
79. JC-468992 NAIB SUBEDAR RAM NIWAS
RAJAPUTANA RIFLES/9 RASHTRIYA RIFLES
80. JC-498986 NAIB SUBEDAR JHIRMAL SINGH, 3 SIKH
81. JC-499010 NAIB SUBEDAR TARLOCHAN SINGH, 7 SIKH
82. JC-519174 NAIB SUBEDAR SOM DATT, DOGRA/40 RASHTRIYA RIFLES
83. JC-579033 NAIB SUBEDAR CHARAN DASS
6 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
84. JC-602437 NAIB SUBEDAR PREM BAHADUR THAPA, 4/1 GORKHA RIFLES
85. 2473053 HAVILDAR RAMESH KUMAR, 24 PUNJAB
86. 2481132 HAVILDAR RACHHPAL SINGH, 16 PUNJAB
87. 2585680 HAVILDAR DINAKARAN C, 18 MADRAS
88. 2982186 HAVILDAR AJAY PAL SINGH, 2 RAJPUT
89. 3171907 HAVILDAR DHARAMVEER SINGH, 7 JAT
90. 3176044 HAVILDAR NAHAR SINGH, 7 JAT
91. 3386907 HAVILDAR LAKHBIR SINGH, 5 SIKH
92. 4065101 HAVILDAR PURAN SINGH, 15 GARHWAL RIFLES
93. 4176044 HAVILDAR DALBIR SINGH RAUTELA, 7 KUMAON
94. 4180637 HAVILDAR NAJIM SINGH YADAV, 7 KUMAON
95. 4264115 HAVILDAR RAMESH PRATAP SINGH, 8 BIHAR (POSTHUMOUS)
96. 4359215 HAVILDAR RAMANI KANTA DAS, ASSAM/35 RASHTRIYA RIFLES
97. 4557433 HAVILDAR JASWANT SINGH, MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES

98. 5346137 HAVILDAR SUNIL KUMAR GURUNG, 2/4 GORKHA RIFLES
99. 5346204 HAVILDAR TIL BAHADUR THAPA, 2/4 GORKHA RIFLES
100. 5845771 HAVILDAR MOHAN BAHADUR SHAHI, 4/9 GORKHA RIFLES
101. 9085973 HAVILDAR ANAR SINGH
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/10 RASHTRIYA RIFLES
102. 13616064 HAVILDAR BIR BAHADUR THAPA, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
103. 13616203 HAVILDAR NUMAL CHANDRA GOGAI, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
104. 13617368 HAVILDAR RANJIT SINGH, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
105. 13617709 HAVILDAR NARENDRA KUMAR THAKUR
2 PARA (SPECIAL FORCES)
106. 13745826 HAVILDAR AMARJIT SINGH
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/31 RASHTRIYA RIFLES (CDO)
107. 2678499 LANCE HAVILDAR MOHAN LAL
GRENADIERS/39 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
108. 2679961 LANCE HAVILDAR PIARE RAM, 6 GRENADIERS
109. 2788188 LANCE HAVILDAR BHOSALE JAYPAL SHIVAJI,
11 MARATHA LIGHT INFANTRY
110. 3183198 LANCE HAVILDAR JAGDISH PRASAD, 21 JAT
111. 3391872 LANCE HAVILDAR BALJIT SINGH, 7 SIKH
112. 5846596 LANCE HAVILDAR DILIP CHHETRI, 4/9 GORKHA RIFLES
113. 1481829 NAIK KULDEEP RAJ, ENGINEERS/ 39 RASHTRIYA RIFLES
114. 2477742 NAIK KULDEEP SINGH, PUNJAB/37 RASHTRIYA RIFLES
115. 2593173 NAIK MAHANTESH, 18 MADRAS
116. 2685618 NAIK RAJ KUMAR, 22 GRENADIERS (POSTHUMOUS)
117. 2686897 NAIK ABID ALI, 5 GRENADIERS (POSTHUMOUS)
118. 2786171 NAIK ROKADE RAMESH VITHALRAO
MARATHA LIGHT INFANTRY/41 RASHTRIYA RIFLES
119. 2788710 NAIK SANTOSH SAWANT,
MARATHA LIGHT INFANTRY/41 RASHTRIYA RIFLES

120. 2789557 NAIK NIVRUTTI PATIL, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY
121. 4179495 NAIK AMAR SINGH, 4 KUMAON
122. 4182851 NAIK DINESH SINGH, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
123. 4268799 NAIK GAURI SHANKER KANTI, 8 BIHAR
124. 4362182 NAIK THANGHUA PAUTU, 9 ASSAM
125. 5044357 NAIK HARSH BAHADUR THAPA, 4/1 GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
126. 13693382 NAIK GAIKWAD RAJU SANDHU
GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
127. 15113194 NAIK DHANI RAM, ARTILLERY/43 RASHTRIYA RIFLES
128. 2483139 LANCE NAIK RAJENDER KUMAR, PUNJAB/22 RASHTRIYA RIFLES
129. 2485429 LANCE NAIK SATPAL SINGH, PUNJAB/37 RASHTRIYA RIFLES
130. 2486110 LANCE NAIK GURDEV SINGH, 24 PUNJAB
131. 2685420 LANCE NAIK SANJEEV SINGH THAKUR
GRENADIERS/12 RASHTRIYA RIFLES
132. 2792194 LANCE NAIK CHANDRAKANT RAOSAHEB AINAPURE, MARATHA
LIGHT INFANTRY/17 RASHTRIYA RIFLES
133. 2887226 LANCE NAIK ANIL KUMAR, 13 RAJPUTANA RIFLES
134. 2891459 LANCE NAIK SUGREEN
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
135. 2991749 LANCE NAIK DEVENDRA SINGH BHADORIA, 6 RAJPUT
136. 3185017 LANCE NAIK RAJ KUMAR, 7 JAT
137. 3394419 LANCE NAIK GURMEET SINGH, 3 SIKH
138. 3395258 LANCE NAIK SAHIB SINGH, 3 SIKH
139. 4074718 LANCE NAIK PAN SINGH, 16 GARHWAL RIFLES
140. 4074719 LANCE NAIK JAGDISH SINGH
GARHWAL RIFLES/14 RASHTRIYA RIFLES
141. 4468831 LANCE NAIK DEVRAJ SINGH
SIKH LIGHT INFANTRY/19 RASHTRIYA RIFLES

142. 4471671 LANCE NAIK RANDHIR SINGH
SIKH LIGHT INFANTRY/2 RASHTRIYA RIFLES
143. 4474567 LANCE NAIK SUKHDEV SINGH, 11 SIKH LIGHT INFANTRY
144. 9420438 LANCE NAIK KANCHAN MUKHIA, 7/11 GORKHA RIFLES
145. 9420672 LANCE NAIK BENOOR RAI, 3/11 GORKHA RIFLES
146. 10212997 LANCE NAIK MOHD SALAHUDDIN, 113 INF(TA) (POSTHUMOUS)
147. 13694765 LANCE NAIK INDRESH SINGH, GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES
148. 13756029 LANCE NAIK PURAN SINGH, 1 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
149. 14919879 LANCE NAIK SURENDRA KUMAR SAHOO
MECH INFANTRY/5 RASHTRIYA RIFLES
150. 15373673 LANCE NAIK JITENDRA SINGH
SIGNALS/22 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
151. 2491294 SEPOY KULDEEP SINGH, PUNJAB/22 RASHTRIYA RIFLES
152. 2602650 SEPOY TS JENISH, MADRAS/ 38 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
153. 2602987 SEPOY ATHIMOOLA SOMASUNDARA SHANMUGAM,
MADRAS/25 RASHTRIYA RIFLES
154. 2603238 SEPOY S VELMURUGAN, 17 MADRAS
155. 2605177 SEPOY M RASHEED, 18 MADRAS
156. 2795230 SEPOY SAMUDRE SANTOSH WASUDEO
MARATHA LIGHT INFANTRY/41 RASHTRIYA RIFLES
- ✓ 157. 2796988 SEPOY MANE SANTOSH ANKUSHRAO, 18 MARATHA LIGHT INFANTRY
158. 2797106 SEPOY RANJNE RAJESH LAXMAN, 1 MARATHA LIGHT INFANTRY
159. 2797975 SEPOY SHAIK KHADAR BASHA, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY
160. 3398677 SEPOY BALJINDER SINGH, 3 SIKH
161. 3401884 SEPOY JASWINDER SINGH, SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES
162. 3996328 SEPOY RAMESH KUMAR, DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES
163. 3996955 SEPOY MANOJ KUMAR, DOGRA/40 RASHTRIYA RIFLES

164. 3998630 SEPOY DAWINDER SINGH, DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES
165. 4000094 SEPOY ATTAR SINGH, 9 DOGRA
166. 4191039 SEPOY JAGDISH SINGH, KUMAON/13 RASHTRIYA RIFLES
167. 4274976 SEPOY DINESH GOSWAMI
BIHAR/24 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
168. 4368177 SEPOY N TSENHUNGO EZONG, 1 ASSAM
169. 4368323 SEPOY LALRINMAWIA, 9 ASSAM
170. 4569557 SEPOY SANJU SINGH KUSHWAH
MAHAR/30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
171. 4571100 SEPOY SUKHJINDER SINGH
MAHAR/30 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
172. 8034733 SEPOY AJAY KUMAR, 21 BIHAR
173. 10213326 SEPOY BIDHAN MANDAL,
133 INFANTRY BATTALION(TA) RAJPUT
174. 2501953 RIFLEMAN SANTHOSH PK, 25 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
175. 2893616 RIFLEMAN SULTAN SINGH ARYA
RAJAPUTANA RIFLES/9 RASHTRIYA RIFLES
176. 2894661 RIFLEMAN ATAL SINGH
RAJPUTANA RIFLES/43 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
177. 2897054 RIFLEMAN SANJAY SINGH, 6 RAJPUTANA RIFLES
178. 3300639 RIFLEMAN BHIM SAIN, 33 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
179. 3300929 RIFLEMAN YAM BAHADUR KHATRI, 33 ASSAM RIFLES
180. 4076450 RIFLEMAN KAPIL DEV THAPLIYAL, 15 GARHWAL RIFLES
181. 4080005 RIFLEMAN CHANDRA BALLAV, 4 GARHWAL RIFLES
182. 4080224 RIFLEMAN YOGESH SINGH, 16 GARHWAL RIFLES
183. 4081007 RIFLEMAN HOSHIYAR SINGH,
GARHWAL RIFLES/48 RASHTRIYA RIFLES
184. 4081115 RIFLEMAN DHARMENDRA SINGH ASWAL, 2 GARHWAL RIFLES
185. 5046517 RIFLEMAN MAN BAHADUR PUN, 3/1 GORKHA RIFLES

186. 5047479 RIFLEMAN MAHINDAR SINGH,
1 GORKHA RIFLES/15 RASHTRIYA RIFLES
187. 5349297 RIFLEMAN JHAM BAHADUR PUN
4 GORKHA RIFLES/15 RASHTRIYA RIFLES
188. 9421403 RIFLEMAN KISHAN RAI, 6/11 GORKHA RIFLES
189. 13758238 RIFLEMAN DINA NATH
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/28 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
190. 13763351 RIFLEMAN JOGINDER SINGH
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/31 RASHTRIYA RIFLES (CDO)
191. 14426978 RIFLEMAN LOKANADHAM GANAPA, ARTILLERY/29 RASHTRIYA RIFLES
192. 4079277 PARATROOPER SURENDRA SINGH RAWAT, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
193. 4188995 PARATROOPER PRAKASH CHANDRA SINGH, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
194. 4367193 PARATROOPER LERA SONA, 2 PARA (SPECIAL FORCES)
195. 13622006 PARATROOPER ANIL KUMAR, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
196. 13764443 PARATROOPER HITENDER SINGH, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
197. 13620596 COMMANDO DURGA PRASAD DIMRI
PARA/21 SAG, NATIONAL SECURITY GUARDS
198. 13621401 COMMANDO NARENDRA SINGH
PARA/51 SAG, NATIONAL SECURITY GUARDS
199. 2692018 GRENADIER NEELAM SINGH TOMAR
GRENADIERS/12 RASHTRIYA RIFLES
200. 13698027 GUARDSMAN DARSHAN SINGH
GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES
201. 15666989 SIGNALMAN KANDARPA PARDHAN
SIGNALS/31 ARMOURED DIVISION SIGNAL REGIMENT
202. 14618084 CRAFTSMAN SREE KUMAR S
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, 22 RASHTRIYA RIFLES



(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.256–Pres/2003 - The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. RAMESH CHANDRA, LS CD II, NO. 116126-Z
2. ARUN DOBHAL, CPO QA I, NO. 160409-T
3. LIEUTENANT COMMANDER SHAILESH KUMAR DHAKA (03762-Z)



(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.257-Pres/2003 - The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for "Mention in Despatches" received by the Raksha Mantri from the "Chief of the Army Staff" in connection with the "OPERATION RHINO", "OPERATION HIFAZAT" and "OPERATION HIFAZAT II":-

OPERATION RHINO

1. IC-47278 MAJ SURYA PAL SINGH RAWAT, 16 PUNJAB
2. IC-54610 MAJ VIKRAM BHAN, 7 KUMAON
3. IC-55443 MAJ MANPERVESH HERR, SM, 13 GUARDS
4. IC-58266 MAJ SANDEEP KRISHNA KUMAR, 16 SIKH LI
5. SS-37013 MAJ SHABBARUL HASAN, ARTY, 14 FD REGT
6. IC-59171 CAPT RAJIV SHANKAR, SM, ARMY SERVICE CORPS 9 GDRS
7. IC-60260 CAPT SUSHANT GOVIL, 13 GDRS
8. SS-38388 CAPT PARMINDER KANDA, INT, 4 CORPS INT & FS COY
9. IC-60642 LT DHIRENDER YADAV, 24 PUNJAB
10. IC-61862 LT RAJENDRA SINGH, 16 PUNJAB
11. JC-428966 NB SUB ROMESH CHANDER, 24 PUNJAB
12. 2480383 HAV KASHMIR SINGH, 24 PUNJAB
13. 7430977 HAV VIJAY PAL SINGH, INT, 4 CORPS INT & FS COY

OPERATION HIFAZAT

14. IC-54069 CAPT SOMESH JASWAL, HQ 23 SECT
15. 2200936 RIFLEMAN RAMESH CHANDRA JOSHI, 22 ASSAM RIFLES
16. 66409 RIFLEMAN PAONGAM DOUNGEL, ASSAM RIFLES

OPERATION HIFAZAT II

17. IC-50646 MAJ PAVAN KUMAR, ENGRS, 25 ASSAM RIFLES
18. 2103055 RFN RAJENDRA PRASAD PANT, 21 ASSAM RIFLES


(BARUN MITRA)
DIRECTOR

LOK SABHA SECRETARIAT**New Delhi, the 17th December, 2003**

No. 6/11/CI/2002 – The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated 15th December, 2003, is hereby published for general information :-

“No. 4316**Nomination of a Member to the Committee
on External Affairs**

The Speaker has nominated Dr. Sebastian Paul to be a member of the Committee on External Affairs.”

Brahm Dutt
(BRAHM DUTT)
DIRECTOR